



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 26

23 दिसम्बर 2011

संख्या 51

1. भारतीय रिज़र्व बैंक — देयताएं और आस्तियां

(करोड़ ₹)

मद	2010	2011		घट-बढ़	
	17 दिसम्बर	9 दिसम्बर	16 दिसम्बर #	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
जारी नोट	9,00,965	10,14,840	10,17,991	3,151	1,17,026
संचलन में नोट	9,00,948	10,14,825	10,17,979	3,154	1,17,030
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	17	16	13	-3	-4
जमा राशियां					
केंद्र सरकार	1,00,278	101	100	—	-1,00,177
बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—
राज्य सरकार	304	42	42	—	-261
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,07,732	3,67,601	3,49,659	-17,942	41,927
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3,789	3,835	3,937	102	148
अन्य बैंक	14,918	17,112	16,662	-450	1,744
अन्य	12,068	10,513	10,528	15	-1,540
अन्य देयताएं	3,49,018	6,00,481	6,07,789	7,308	2,58,771
कुल देयताएं / आस्तियां	16,89,072	20,14,525	20,06,709	-7,815	3,17,637
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	12,06,004	14,20,742	14,11,865	-8,877	2,05,861
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	1,01,857	1,46,289	1,46,289	—	44,432
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	3,70,968	3,99,643	4,37,657	38,014	66,690
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	34,717	—	-34,717	—
राज्य सरकारें	169	290	369	79	200
नाबाई	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4,221	5,973	3,828	-2,145	-393
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	30	—	—	—	-30
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	366	731	698	-33	333
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	1,320	1,320	1,320	—	—
अन्य आस्तियां	4,137	4,819	4,683	-136	546

- (1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइआइएफएसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।
 (2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।
 (3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	16 दिसम्बर 2011 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2011 की समाप्ति पर		दिसम्बर 2010 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल भंडार	15,93,597	302,100	-8,520	-4,675	2,32,583	-2,718	2,61,243	4,766	2,54,959	7,498
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	14,09,858	266,968	-8,899	-4,668 *	1,84,975	-7,362	2,09,781	-846	2,04,988	1,520
(ख) स्वर्ण \$	1,46,289	28,041	—	—	43,717	5,069	45,603	5,571	44,432	5,917
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	23,444	4,439	-20	-54	3,043	-130	691	-639	461	-624
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	14,006	2,652	399	47	848	-295	5,168	680	5,078	685

- + आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किए गये ₹2,007 करोड़ / 380 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश को छोड़कर।
 * अमरीकी डॉलर के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियां में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।
 ** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित निधि की स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दिखाया गया है अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल की गई है।
 @ इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर (4,883 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) और विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीआर (340 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिनका आवंटन क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।
 \$ इसमें ₹31,463 करोड़ (6,699 मिलियन अमरीकी डॉलर) शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2 दिस. 2011 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		पखवाड़े में	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2010-2011	2011-2012	2010	2011
	1	2	3	4	5	6
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	71,384	1,575	1,498	-2,358	14,848	4,954
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	23,171	-3,604	-9,786	-6,553	5,113	600
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	10,010	117	936	2,886	1,281	3,096
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	57,10,061	62,798	3,51,964	5,02,092	6,36,861	8,65,271
		(1.1)	(7.8)	(9.6)	(15.1)	(17.9)
मांग	5,72,518	13,143	-41,547	-69,187	75,949	-31,545
मीयादी	51,37,543	49,655	3,93,511	5,71,279	5,60,912	8,96,816
उधार ⁽³⁾	1,69,332	1,795	14,952	37,991	15,568	50,102
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,60,360	12,225	5,363	18,556	9,851	25,576
रिजर्व बैंक से उधार	2,273	-946	3,345	-2,758	3,387	-1,113
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,84,782	-12,090	27,025	35,274	81,564	50,789
पास में नकदी	36,748	-1,732	5,109	6,402	6,946	6,061
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	3,48,035	-10,359	21,917	28,872	74,618	44,728
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	57,574	2,463	-13,427	1,437	5,037	8,581
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	19,768	1,975	-5,660	3,162	2,955	7,760
बैंकों को अग्रिम	6,214	-1,402	-5,709	-6,355	1,912	2,031
अन्य आस्तियां	70,168	-208	6,997	1,095	26,915	18,708
निवेश⁽⁵⁾	17,43,713	29,727	98,830	2,42,094	97,139	2,60,131
		(1.7)	(7.1)	(16.1)	(7.0)	(17.5)
सरकारी प्रतिभूतियों में	17,38,236	28,328	1,00,348	2,41,088	99,551	2,59,494
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	5,477	1,399	-1,518	1,006	-2,413	637
बैंक ऋण	42,35,421	46,377	3,52,813	2,93,338	6,75,083	6,37,820
		(1.1)	(10.9)	(7.4)	(23.1)	(17.7)
खाद्य ऋण	81,844	3,131	12,998	17,561	16,924	20,356
खाद्येतर ऋण	41,53,577	43,246	3,39,814	2,75,777	6,58,159	6,17,464
ऋण, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	40,81,502	43,951	3,45,844	2,87,496	6,45,552	6,13,500
देशी बिल - खरीदे गए	14,698	728	-660	1,254	896	3,344
भुनाए गए ⁽⁶⁾	81,695	129	6,460	1,828	20,150	13,017
विदेशी बिल - खरीदे गए	19,120	996	1,660	537	1,599	1,327
भुनाए गए	38,407	574	-492	2,223	6,886	6,632
नकद-जमा अनुपात	6.74					
निवेश-जमा अनुपात	30.54					
ऋण-जमा अनुपात	74.17					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एफ़िज़म बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांख्यिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2010	2011					
	10 दिसम्बर	4 नवम्बर	11 नवम्बर	18 नवम्बर	25 नवम्बर	2 दिसम्बर	9 दिसम्बर
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आधार दर ⁽²⁾	7.60/8.50	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75
जमा दर ⁽³⁾	7.00/8.75	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25
मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) ⁽⁴⁾	6.61	8.47	8.60	8.57	8.67	8.54	8.58

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) 1 जुलाई 2010 से पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित आधार दर। पहले के आंकड़ों का संबंध बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से है। (3) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित है। (4) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन का 90-95 प्रतिशत भाग शामिल है। मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) सप्ताह (शनिवार से शुक्रवार) के लिए दैनिक मांग मुद्रा दर का मात्रा-भारकित औसत है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बांडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

मद	2011-2012			2010-2011		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (2)-(1)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (5)-(4)
	2011			2010		
	25 मार्च	2 दिसम्बर		26 मार्च	3 दिसम्बर	
	1	2	3	4	5	6
1. बैंक ऋण	39,42,083	42,35,421	2,93,338 (7.4)	32,44,788	35,97,601	3,52,813 (10.9)
क. खाद्य ऋण	64,283	81,844	17,561	48,489	61,488	12,998
ख. खाद्येतर ऋण	38,77,800	41,53,577	2,75,777 (7.1)	31,96,299	35,36,113	3,39,814 (10.6)
2. निवेश	1,47,601	1,73,319	25,718	1,18,071	1,49,441	31,370
क. वाणिज्यिक पत्र	12,309	24,978	12,669	25,188	35,712	10,524
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	41,316	37,773	-3,543	30,106	35,459	5,353
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	8,965	7,768	-1,197	4,625	8,121	3,496
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	32,351	30,005	-2,347	25,481	27,339	1,857
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	93,975	1,10,568	16,593	62,777	78,269	15,493
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	27,946	35,211	7,265	22,710	23,762	1,052
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	66,029	75,357	9,328	40,067	54,507	14,440
3. कुल (1ख+2)	40,25,401	43,26,896	3,01,496 (7.5)	33,14,370	36,85,554	3,71,184 (11.2)
ज्ञापन मदें :						
में निवेश						
क. पारस्परिक निधियों द्वारा जारी लिखतें	47,603	55,383	7,780	52,887	39,587	-13,300
ख. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी लिखतें	31,296	34,456	3,160	32,597	28,933	-3,665
ग. अन्यो द्वारा जारी बांड / डिबेंचर	45,615	42,510	-3,104	30,902	31,477	576

टिप्पणी: 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

6. विदेशी मुद्रा दरें – हाज़िर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2011					वार्षिक वृद्धि (+)/ह्रास (-) (प्रतिशत)				
	12 दिस.	13 दिस.	14 दिस.	15 दिस.	16 दिस.	12 दिस.	13 दिस.	14 दिस.	15 दिस.	16 दिस.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	52.4238	53.4030	53.5770	54.2355	52.8140	—	-15.27	-15.99	-16.44	-14.06
यूरो	69.9405	70.4435	69.8925	70.4602	68.8091	—	-15.27	-13.71	-14.46	-12.73
फेडरॉ की सांकेतिक दरें (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर { खरीद	52.4500	53.4250	53.6450	54.2200	52.8300	—	-15.30	-16.10	-16.41	-14.10
{ बिक्री	52.4600	53.4350	53.6550	54.2300	52.8400	—	-15.30	-16.09	-16.41	-14.10
पौंड { खरीद	81.9575	83.4025	83.0475	83.7475	82.0300	—	-14.38	-14.02	-14.97	-13.88
स्टर्लिंग { बिक्री	81.9800	83.4275	83.0900	83.7850	82.0650	—	-14.37	-14.02	-14.97	-13.89
यूरो { खरीद	69.9575	70.5000	69.9525	70.4375	68.8425	—	-15.34	-13.81	-14.47	-12.78
{ बिक्री	69.9925	70.5175	69.9875	70.4675	68.8675	—	-15.32	-13.81	-14.48	-12.78
100 येन { खरीद	67.5475	68.5825	68.8025	69.4500	67.8100	—	-21.58	-21.62	-22.20	-20.55
{ बिक्री	67.5675	68.6125	68.8250	69.4800	67.8400	—	-21.56	-21.62	-22.18	-20.56
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमिया (वार्षिक प्रतिशत)										
1 - माह	7.78	7.64	7.84	7.74	7.73					
3 - माह	5.80	6.07	6.49	6.78	6.85					
6 - माह	5.34	5.51	5.97	6.16	6.12					

—पिछले वर्ष के तदनुकूपी दिन बाजार बंद।

टिप्पणी: 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		परवर्द्ध		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	2 दिस. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम ₃	64,99,548	70,73,261	59,587	0.8	4,77,118	8.5	5,73,712	8.8	8,23,844	15.7	9,93,411	16.3
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	9,14,197	9,72,459	-4,925	-0.5	1,00,092	13.0	58,262	6.4	1,37,172	18.8	1,04,875	12.1
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	7,17,660	6,51,520	13,046	2.0	-41,234	-5.7	-66,139	-9.2	87,502	14.9	-25,215	-3.7
(iii) बैंकों के पास मीमादी जमा	48,63,979	54,46,670	49,977	0.9	4,17,817	10.2	5,82,690	12.0	5,98,579	15.2	9,15,423	20.2
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,713	2,612	1,490	132.7	444	11.6	-1,101	-29.6	591	16.0	-1,671	-39.0
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	19,82,771	22,31,635	18,720	0.8	1,55,854	9.3	2,48,864	12.6	3,00,081	19.7	4,06,595	22.3
(क) रिजर्व बैंक	3,96,555	4,07,242	-9,661		44,432		10,688		1,83,896		1,51,225	
(ख) अन्य बैंक	15,86,216	18,24,392	28,380	1.6	1,11,422	7.6	2,38,176	15.0	1,16,185	8.0	2,55,370	16.3
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	42,35,406	45,33,989	47,847	1.1	3,84,195	11.0	2,98,582	7.0	7,15,187	22.6	6,58,385	17.0
(क) रिजर्व बैंक	2,164	1,737	-171	—	298	—	-427	—	-3,368	—	111	—
(ख) अन्य बैंक	42,33,242	45,32,252	48,018	1.1	3,83,897	11.0	2,99,009	7.1	7,18,555	22.8	6,58,273	17.0
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,93,327	15,84,776	38	—	89,857	7.0	1,91,450	13.7	23,273	1.7	2,13,451	15.6
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	12,724	13,312	—	—	984	8.7	587	4.6	1,426	13.2	1,058	8.6
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रांतर देयताएं जिनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुद्रांतर देयताएं	11,24,680	12,90,450	7,018	0.5	1,53,772	18.1	1,65,770	14.7	2,16,123	27.4	2,86,077	28.5
	3,68,274	5,81,505	4,030	0.7	50,493	16.7	2,13,230	57.9	-29,962	-7.8	2,29,397	65.1

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	16 दिस. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	13,76,881	14,02,652	-15,121	-1.1	87,323	7.6	25,770	1.9	2,25,906	22.2	1,59,643	12.8
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	9,49,659	10,31,290	3,154	0.3	1,13,654	14.2	81,631	8.6	1,45,834	19.0	1,18,088	12.9
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	4,23,509	3,70,258	-18,289	-4.7	-25,859	-7.3	-53,251	-12.6	81,693	33.4	43,819	13.4
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	3,713	1,103	15	1.4	-471	-12.3	-2,609	-70.3	-1,621	-32.5	-2,264	-67.2
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	3,96,555	4,38,037	3,341		59,210		41,482		1,83,885		1,67,242	
	3,94,035	4,37,711	3,262		59,349		43,676		1,84,037		1,66,781	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	7,324	5,826	-2,178		3,419		-1,497		1,035		-90	
	5,159	3,828	-2,178		3,122		-1,331		4,128		-463	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,28,553	15,58,137	-8,877	-0.6	75,896	6.2	2,29,583	17.3	9,467	0.7	2,50,292	19.1
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	12,724	13,312	—	—	984	8.7	587	4.6	1,335	12.2	1,058	8.6
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुद्रांतर देयता	3,68,274	6,12,660	7,407	1.2	52,185	17.3	2,44,385	66.4	-30,184	-7.9	2,58,860	73.2

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(करोड़ ₹)

तारीख	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि(+) / कमी(-) (5-10)	एमएसएफ	बकाया राशि
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12 दिसम्बर 2011	1	36	79,940	36	79,940	8.50	1	5	1	5	7.50	79,935	—	–79,935
13 दिसम्बर 2011	1	39	79,730	39	79,730	8.50	—	—	—	—	—	79,730	—	–79,730
14 दिसम्बर 2011	1	45	86,545	45	86,545	8.50	2	290	2	290	7.50	86,255	—	–86,255
15 दिसम्बर 2011	1	58	1,11,845	58	1,11,845	8.50	1	15	1	15	7.50	1,11,830	—	–1,11,830
16 दिसम्बर 2011	3	57	1,16,690	57	1,16,690	8.50	5	465	5	465	7.50	1,16,225	—	
16 दिसम्बर 2011*	3	27	31,780	27	31,780	8.50	—	—	—	—	—	31,780	—	–1,48,005

एमएसएफ : सीमांत स्थायी सुविधा ।

‘—’ : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई/लागू नहीं

* चलनिधि समायोजना सुविधा के अंतर्गत अतिरिक्त रिपो परिचालन

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर न्यागमन	कुल निर्गम (7+8+9)	भारत औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91-दिवसीय खजाना बिल													
2011-2012													
6 अप्रैल	8 अप्रैल	4,000	78	14,105	—	35	4,000	—	—	4,000	98.26	7.1443	69.845
6 जुलाई	8 जुलाई	7,000	94	27,621	250	29	7,000	250	—	7,250	98.00	8.1857	1,21.860
5 अक्तू.	7 अक्तू.	4,000	69	14,755	1,500	41	4,000	1,500	—	5,500	97.94	8.4364	1,14.719
14 दिस.	16 दिस.	4,000	98	15,267	1,701	47	4,000	1,701	—	5,701	97.94	8.4782	84.824
182-दिवसीय खजाना बिल													
2011-2012													
13 अप्रैल	15 अप्रैल	2,000	74	7,744	1,500	25	2,000	1,500	—	3,500	96.43	7.4462	24,501
6 जुलाई	8 जुलाई	3,000	75	7,178	—	44	3,000	—	—	3,000	96.04	8.2692	34,251
12 अक्तू.	14 अक्तू.	4,000	56	7,293	—	41	4,000	—	—	4,000	95.90	8.6177	42,100
7 दिस.	9 दिस.	4,000	82	10,665	—	29	4,000	—	—	4,000	95.97	8.5087	44,351
364-दिवसीय खजाना बिल													
2011-2012													
6 अप्रैल	8 अप्रैल	2,000	80	8,350	—	31	2,000	—	—	2,000	93.02	7.5476	42,456
13 जुलाई	15 जुलाई	3,000	107	13,141	—	20	3,000	—	—	3,000	92.41	8.2360	53,308
5 अक्तू.	7 अक्तू.	4,000	93	10,645	—	43	4,000	—	—	4,000	92.18	8.5185	65,161
14 दिस.	16 दिस.	4,000	82	12,925	—	18	4,000	—	—	4,000	92.45	8.2595	77,369

टिप्पणियाँ: 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फॉर्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है ।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगी बोलियों की अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है ।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(करोड़ ₹)

	दिनांक													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3 दिस.	4 दिस.	5 दिस.	6 दिस.	7 दिस.	8 दिस.	9 दिस.	10 दिस.	11 दिस.	12 दिस.	13 दिस.	14 दिस.	15 दिस.	16 दिस.
16 दिसम्बर 2011 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधी अपेक्षाएँ	3,58,719	3,58,719	3,58,719	3,58,719	3,58,719	3,58,719	3,58,719	3,58,719	3,58,719	3,58,719	3,58,719	3,58,719	3,58,719	3,58,719
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष	3,54,058	3,54,058	3,90,719	3,90,744	3,66,335	3,54,447	3,67,029	3,69,957	3,69,957	3,48,616	3,44,694	3,48,759	3,64,973	3,49,853

टिप्पणी: ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं ।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #		पखवाड़े के दौरान जारी #		ब्याज दर (प्रतिशत) @	
	1	2	3	4	5	6
14 जनवरी 2011		3,71,881		44,019		7.18-9.82
8 अप्रैल 2011		4,44,525		61,292		8.00-11.70
15 जुलाई 2011		4,05,973		28,431		8.20-10.10
7 अक्टूबर 2011		3,87,313		41,694		8.80-9.85
21 अक्टूबर 2011		3,85,936		11,635		9.00-9.90
4 नवम्बर 2011		3,82,201		6,037		9.20-9.99

@ प्रभावी वार्षिक ब्याज दर सीमा प्रतिवर्ष ।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
	1	2	3
15 अक्टूबर 2010	1,32,093	35,490	6.50-10.00
15 जनवरी 2011	98,913	22,908	6.60-11.95
15 अप्रैल 2011	1,05,518	30,840	7.15-12.30
15 जुलाई 2011	1,28,347	29,818	8.10-13.25
15 अक्टूबर 2011	1,66,462	29,243	8.75-13.50
31 अक्टूबर 2011	1,68,769	16,179	7.75-14.50

@ पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 2004-05=100)

मद	भार	2010	2011		निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		4 दिसम्बर	8 अक्टूबर *	3 दिसम्बर #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
		1	2	3	4	5	6	7
सभी पण्य @	100.00	..	..	..	..	..	..	..
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	187.8	203.1	198.1	-0.6	-2.4	5.1	5.5
(i) फल और सब्जियां	3.84	177.7	198.8	174.8	-3.7	-12.6	4.7	-1.6
ईंधन और विद्युत	14.91	149.6	170.1	172.4	0.3	0.5	9.2	15.2
विनिर्मित उत्पाद @	64.97	..	..	..	..	..	..	..
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	2.09	..	..	..	..	..	..	..
(ii) खाद्य तेल	3.04	..	..	..	..	..	..	..
(iii) सीमेंट और चूना	1.39	..	..	..	..	..	..	..
(iv) लोहा और सेमिस	1.56	..	..	..	..	..	..	..

* अद्यतन उपलब्ध अंतिम आंकड़े।

प्रोट : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

@ आंकड़ों को प्रति माह जारी किया जाता है।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2010	2011				
	16 दिसम्बर	12 दिसम्बर	13 दिसम्बर	14 दिसम्बर	15 दिसम्बर	16 दिसम्बर
	1	2	3	4	5	6
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	19864.85	15870.35	16002.51	15881.14	15836.47	15491.35
एसएंडपी सीएनएसक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	5948.75	4764.60	4800.60	4763.25	4746.35	4651.60

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त *

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह						
	4 नवम्बर 2011	11 नवम्बर 2011	18 नवम्बर 2011	25 नवम्बर 2011	2 दिसम्बर 2011	9 दिसम्बर 2011	16 दिसम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	10,022	8,613	8,551	9,495	6,996	7,990	10,154
ख) दिए गए ऋण	10,479	9,585	9,003	10,613	7,848	9,086	11,168
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	457	972	452	1,118	852	1,096	1,014
ख) दिए गए ऋण	—	—	—	—	—	—	—
3. कुल							
क) लिए गए उधार	10,479	9,585	9,003	10,613	7,848	9,086	11,168
ख) दिए गए ऋण	10,479	9,585	9,003	10,613	7,848	9,086	11,168

टिप्पणी: 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)@

(करोड़ ₹)

मद	समाप्त सप्ताह					
	11 नवम्बर 2011	18 नवम्बर 2011	25 नवम्बर 2011	2 दिसम्बर 2011	9 दिसम्बर 2011	16 दिसम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	53,364	1,31,544	85,526	1,50,152	1,62,719	2,09,768
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1,740	1,631	2,163	1,285	4,286	4,253
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	4,025	3,753	2,805	8,241	6,470	8,942
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	1,060	2,940	2,656	4,759	7,817	8,033
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	971	4,748	904	11,027	10,524	5,247
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	60	133	11,073	5,928	9,153	—

@ रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* भार.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी \$)

स्थिति की तारीख	वणिज्य						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई			एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खरीद												
28 नवम्बर 2011	3,496	1,717	2,217	312	338	371	9,074	7,431	518	3,078	2,575	210
29 नवम्बर 2011	2,998	1,557	1,563	359	476	812	7,835	6,693	469	3,117	2,488	97
30 नवम्बर 2011	2,996	2,010	2,121	369	206	267	9,189	6,575	483	3,212	1,693	128
1 दिसम्बर 2011	2,461	2,027	1,190	232	290	158	8,707	9,352	753	2,235	2,272	103
2 दिसम्बर 2011	2,596	1,589	888	142	110	183	7,068	6,547	1,232	1,659	1,194	78
बिक्री												
28 नवम्बर 2011	3,279	2,483	1,925	342	372	357	8,470	7,812	1,068	3,037	2,521	220
29 नवम्बर 2011	2,549	1,955	1,204	334	447	830	7,802	6,736	555	3,128	2,654	114
30 नवम्बर 2011	2,842	2,297	2,150	325	220	271	8,305	7,896	782	3,144	1,870	148
1 दिसम्बर 2011	2,864	3,052	817	230	279	208	7,581	10,699	1,240	2,238	2,245	97
2 दिसम्बर 2011	2,318	1,805	654	137	323	101	6,367	7,557	1,575	1,598	1,270	71

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिज्य और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह					
	11 नवम्बर 2011	18 नवम्बर 2011	25 नवम्बर 2011	2 दिसम्बर 2011	9 दिसम्बर 2011	16 दिसम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6
राशि	137.78	599.42	1,223.53	1,157.43	1,134.52	1,322.87

स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ ₹)

धारक	16 दिसम्बर 2011					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल					सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)	कुल (1+2+3+4)		
	1	2	3	4	5	6	7
बैंक	—	24,980	13,449	22,415	60,844	-3,030	17,425
प्राथमिक व्यापारी *	—	24,832	22,507	37,734	85,074	-1,155	28,477
राज्य सरकारें	71,209	23,768	400	419	95,796	-1,009	-15,693
अन्य	2,290	11,244	7,995	16,802	38,331	4,822	11,529

* बैंक प्राथमिक व्यापारी सहित

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार — 2011-2012

(अंकित मूल्य करोड़ ₹ में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2011-2012 (16 दिसम्बर 2011 तक)	2010-2011 (17 दिसम्बर 2010 तक)	2010-2011	2011-2012 (16 दिसम्बर 2011 तक)	2010-2011 (17 दिसम्बर 2010 तक)	2010-2011
	1	2	3	4	5	6
1. कुल	3,67,000	3,78,000	4,37,000	2,93,419	2,92,342	3,25,414
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन* : बिक्री खरीद	5,902 30,236	5,543 35,713	11,575 78,799			

* भारिबैं.के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)*

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	9 दिसम्बर 2011 को समाप्त सप्ताह			16 दिसम्बर 2011 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2011-12	10	8.8762	8.8762	—	—	—
2012-13	416	8.4952	8.6732	279	8.4612	8.5600
2013-14	80	8.3160	8.3905	50	8.2580	8.2580
2014-15	35	8.4071	8.4444	165	8.2357	8.4190
2015-16	77	8.4234	8.5677	106	8.2510	8.4103
2016-17	681	8.3976	8.6199	756	8.3411	8.4726
2017-18	42	8.6228	8.6752	675	8.3529	8.5508
2018-19	7,511	8.4494	8.6755	6,211	8.3744	8.5008
2019-20	—	—	—	20	8.5500	8.5500
2020-21	2,057	9.3771	10.0657	2,442	9.1984	10.0309
2021 से आगे	70,451	8.4976	9.1148	94,180	8.4041	8.8607
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	2,143	8.9457	9.2135	2,127	8.5485	9.0568
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	470	8.4000	8.8007	213	8.4496	8.7000
ख) 15 - 91 दिन	3,344	8.3502	8.8500	4,786	8.2500	8.7504
ग) 92 - 182 दिन	3,677	8.3865	8.7001	3,893	8.2500	8.5003
घ) 183 - 364 दिन	4,915	8.1300	8.4701	2,218	8.2175	8.4505
II. भा.रि.बैं.* : बिक्री	30			—		
खरीद	9,123			— +		
III. रिपो लेन देन * (भा. रि. बैं. से इतर)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	32,011	7.75 (1)	9.40 (17)	41,772	6.50 (1)	9.65 (15)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	601	8.40 (1)	9.25 (15)	297	8.55 (1)	8.55 (1)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	8,793	7.75 (1)	8.75 (3)	7,546	7.50 (1)	9.00 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	5,891	8.40 (1)	8.70 (3)	9,213	7.50 (1)	9.00 (3)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	3,982	8.15 (1)	8.65 (3)	2,788	8.00 (1)	9.00 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रिपो *	3,64,000	8.50	8.50	5,06,530	8.50	8.50
: रिर्स रिपो !	215	7.50	7.50	775	7.50	7.50

@ भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेन देन शामिल है।

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेन देन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेन देन शामिल हैं।

** न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (₹5 करोड़ से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

* कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कंपनियों की ₹ शून्य (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बॉण्ड (तेल बॉण्ड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अर्न्तम

उपयुक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः ₹800 और ₹2,000

तथा विदेश में क्रमशः 50 अमरीकी \$ और 125 अमरीकी \$ है।

श्रीमती महुआ रॉय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और ऑनलुकर प्रेस, 16, ससुन डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित और भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 द्वारा प्रकाशित, संपादक श्रीमती महुआ रॉय।